



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012025-259820  
CG-DL-E-02012025-259820

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1055]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946

No. 1055]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

फा.सं. 18-15/3822-आईएनसी:-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, केईटी स्कूल ऑफ नर्सिंग, प्लॉट नं. 129/8, बैंक कॉलोनी, कुंभारवाड़ा रोड, बीदर, जिला बीदर-585403 (कर्नाटक) कर्नाटक राज्य सरकार तथा कर्नाटक उपचर्या पंजीकरण परिषद् द्वारा जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कमरा संख्या 105, प्रथम तल, विकास सौदा, बेंगलुरु-560001, कर्नाटक को संबोधित नोटिस संख्या 18-15/3822-आईएनसी (47397) दिनांक 26.12.2023 को जारी किया गया था। दिनांक 26.12.2023 को जारी नोटिस की एक प्रति केईटी स्कूल ऑफ नर्सिंग, प्लॉट नं. 129/8, बैंक कॉलोनी, कुंभारवाड़ा रोड, बीदर, जिला बीदर-585403 (कर्नाटक) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, केईटी स्कूल ऑफ नर्सिंग के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी केईटी स्कूल ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 12.04.2023 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये कमियां गंभीर हैं जो दर्शाती हैं कि संस्थान जीएनएम पाठ्यक्रम का संचालन करने में असमर्थ है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 21.05.2024 से केईटी स्कूल ऑफ नर्सिंग, प्लॉट नं. 129/8, बैंक कॉलोनी, कुम्भारवाड़ा रोड, बीदर, जिला बीदर-585403 (कर्नाटक) से जीएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल कर्नाटक राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./817/2024-25]

### INDIAN NURSING COUNCIL

#### WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 19th November, 2024

**F.No. – 18-15/3822-INC:** — In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **KET School of Nursing** situated at **Plot No. 129/8 Bank Colony Kumbharwada Road, Bidar, Distt. Bidar 585403** is recognized by State Government of Karnataka and Karnataka Nurses Registration Council to conduct **GNM** Course.

Whereas, a notice no. 18-15/3822-INC (47397) dated **26/12/2023** for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to The Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Room No. 105, 1<sup>st</sup> Floor, Vikas Souda, Bangalore 560001 Karnataka was issued Copy of the notice dated 26/12/2023 was also enclosed to **KET School of Nursing** situated at **Plot No. 129/8 Bank Colony Kumbharwada Road, Bidar, Distt. Bidar 585403** In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **KET School of Nursing** Even the institution **KET School of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 12/04/2023 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run **GNM** Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 21/05/2024 any person holding a recognized qualification of **GNM** from **KET School of Nursing** situated at **Plot No. 129/8 Bank Colony Kumbharwada Road, Bidar, Distt. Bidar 585403 Karnataka** shall be entitled to be registered only in the State of Karnataka.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./817/2024-25]